Pushpa-2 scent wafts through box offices

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, December 6

HAILED AS THE new demi-god of entertainment, Allu Arjun is setting the box office ablaze with Pushpa 2: The Rule. Released on Thursday across 10,000 screens nationwide, the film is raking in massive collections across Hindi and regional markets.

While the first day saw the film earn ₹175 crore in net domestic box office collections and the second day is expected to rake in another ₹150 crore in earnings, the first weekend may see the movie cross ₹500 crore in collections across languages, exhibitors and trade analysts told FE. 2022's RRR, for the uninitiated, had achieved about ₹350 crore in its opening weekend in India, implying that Pushpa 2 may surpass this number easily, experts said.

The movie, which tells the story of a red sandalwood smuggler named Pushpa Raj, has been released in Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengali, and Hindi. Other cast members include actors Rashmika Mandanna as Srivalli and Fahadh Faasil as Superintendent of Police Bhanwar Singh Shekhawat.

"Content and entertainment are two things that are working for the movie. We are seeing something like this after a long time following a largely weak performance from Bollywood through the year barring exceptions such as *Stree*," says Kunal Sawhney, chief operating officer, Cineline India, which runs the Moviemax chain of cinemas across cities.

While the first instalment of *Pushpa*, released in December 2021, set the tone for action entertainers from the south, Sawhney says that the second instalment of the film has lived up to its hype. "I am in Delhi right now and people want to watch the film," he adds of the craze despite high ticket prices. In the Mumbai region, for

Day 1 saw the film earn ₹175 cr in net domestic

BO collections Pushpa 2 may surpass RRR's ₹350 cr numbers quite easily this

weekend, say

₹150 cr in earnings ■ Premium screens like IMAX across Mumbai & Delhi, with a recliner seat have

priced tickets

up to ₹2,000

BIGGEST OPENER IN INDIAN CINEMA

Pushpa 2 is likely

to rake in another

Day 2

■The Allu Arjun

₹500 cr

starrer, in all

likeliness is

expected

to surpass

in opening

collections

weekend



■ The Hindi version opened higher than SRK's Jawan at ₹72 cr. Jawan earned ₹65 cr on its opening day

Allu Arjun is a true cross-over artist. His appeal cuts across audiences, says 🐠 Mumbai-based film trade analyst Komal Nahta

instance, tickets for Pushpa 2 have been prized between ₹200-900 per head, depending on the theatre, screen and timing of shows. Premium screens such as an IMAX with a recliner seat have priced tickets for the movie up to ₹2,000 per head. The Delhi market also has

similar price tags for various formats across theatres. Single-screens, on the other hand, have priced tickets at ₹60-₹300 per head depending on the timing of shows as well as the city where the movie is being screened.

Komal Nahta, a Mumbaibased film trade analyst, says that the film has been wellreceived both in Hindi-speaking and regional markets. On Thurs-

day, the Hindi version of Pushpa 2 opened higher than Shahrukh Khan's *Jawan* at ₹72 crore. Iawan had earned ₹65 crore on its opening day last year.

Nahta says that by the end of Friday, Hindi earnings of *Pushpa* 2 will surpass ₹100 crore in two days, which is a good number for a film coming from the south. "In many respects, Allu Arjun is a true cross-over artist. His appeal cuts across audiences. Which is why the Hindi version is doing so well," he says.

Critics have also appreciated the film for portraying its women characters well, apart from raising the bar in terms of action entertainment and giving the male lead the leeway to appear as Goddess Kali.

zensar An **RPG** Company

Zensar Technologies Limited

CIN: L72200PN1963PLC012621 Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, MIDC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune - 411014 Ph: 020-66057500

E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards-2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, read with General Circular Nos. 9/2024 dated September 19, 2024, and along with other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard from time to time (hereinafter collectively referred to as the "MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read along with other circulars issued by SEBI in this regard from time to time, (hereinafter collectively referred to as the "SEBI Circulars"), that the Company has dispatched Postal Ballot Notice through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant(s)/Depositories/the Company/the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. KFin Technologies Limited ("KFin") as on the cut-off date i.e. Friday, November 29, 2024 for seeking approval of the Members on the resolutions as set out in the Postal Ballot Notice.

Members may note that, the physical copies of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not being sent in compliance with the MCA Circulars and SEBI

In terms of the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement thereof via e-mail on Friday, December 6, 2024, to the Members of the Company holding shares as on the cut-off date and who have registered their email addresses with the Depository Participant(s)/Depository(ies)/Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. KFin. Voting rights shall be reckoned based on paid-up value of equity shares registered in the name of the Member(s) as on the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date shall treat the notice for information purposes only.

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Sridhar Mudaliar (FCS 6156) and failing him Ms. Sheetal Joshi (FCS 10480), Partners, SVD & Associates, Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process and votes cast (through remote e-voting) in a fair and transparent

The Company has engaged the services of KFin for providing e-voting facility to all its Members. The remote e-voting period will commence on Monday, December 9, 2024 (9.00 a.m. IST) and will conclude on Tuesday, January 7, 2025 (5.00 p.m. IST). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and shall be disabled by KFin thereafter. Once the Members have cast their votes on the resolutions, they will not be permitted to modify their votes or cast them again.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.zensar.com and on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and KFin, e-voting provider agency at https://evoting.kfintech.com, respectively.

In case of any queries or grievances relating to the remote e-voting, the Members are requested to refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and the e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com/ or contact Mr./Ms. Raghu Veedha, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Tower - B, Plot No 31 and 32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032 at Toll Free No. 1800 309 4001 or e-mail at einward.ris@kfintech.com

The results of the Postal Ballot will be declared within stipulated timelines on or before Thursday, January 9, 2025. Upon declaration, the results will be displayed at the registered office and corporate office of the Company and simultaneously filed with the Stock Exchanges viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), and uploaded on the Company's website at www.zensar.com as well as on the website of KFin https://evoting.kfintech.com.

For Zensar Technologies Limited

Anand Daga

Place: Pune Date: December 6, 2024





How Kohli, Gill loosened India's control

SRIRAM VEERA Adelaide. December 6


SHUBMAN GILL WAS eating a banana when Virat Kohli walked into bat as there was a short delay with the third umpire checking the validity of the catch that dismissed KL Rahul. Soon, both would yield their wickets to mini brain-fades and India began to wobble on the slippery peel at Adelaide. Those two wickets meant the difference between the team taking control of the opening day's play at Adelaide, and now waiting for their bowlers to affect another jail-break.

It was an odd little innings from Virat Kohli. Australia's plan against him was simple and obvious. His response wasn't. They had two backward points and a gully for him and Scott Boland slipped a length ball wide outside off stump. He was still yet to get off the mark, it was the fourth ball he was facing, and he went chasing.

Unsurprisingly, it flew off the edge but somehow eluded both

point fielders. It was a shot as if the fallow years of the recent past with that kind of line never happened. As if there weren't two backward points in place. Over the years, his philosophy for prepping for a game involved not falling prey to self-doubts. His pregame visualisations would have him pinging the gaps, not edging to the catchers. But when the run-tap turned dry, if there





was one shot he had to shelve, it was that chasing down deliveries too far outside off. And he did. Perhaps, the Perth hundred had revived his confidence and wanting to impose himself against the Aussies. Maybe.

Couple of deliveries later, Boland came closer to the off stump and Kohli unfurled an authoritative extra-cover drive for three runs. Beyond the

Indian flag fluttered. India were comfortably placed at 77 for 2 in 20 overs at that point. Mitchell Starc's first deliv-

boundary, in the stands, a large

ery of the next over was a regulation angler from a left-armer. On a length, slipping away towards the 'keeper; a relatively no-fuss ball. But Kohli was in a mood to fuss. His intention thus far had been to strike the ball. At this moment, he was caught in two minds: to leave or to play. There wasn't width like the first Boland delivery he had gone chasing. There wasn't an incoming line like the second Boland delivery he creamed through covers. And he decided to withdraw his bat from the line, but a tad too late, and the edge was pouched by Steve Smith at sec-

ond slip. Kohli had a look at the pitch, a look at his bat as he trudged back.

Six balls later, it was Gill's turn. It was a pretty full delivery from Boland, who throughout the day showed the knack of hitting the ideal line and length. There was no real venom in the ball, but the length was a bit unusual than the norm from Boland who had been generally

hitting the deck. Through his innings, Gill had applied a simple technique: A press back and across that would almost get him around the off and middle stump line; from there he would either press forward or stay there to block or punch. He had played many a sweet shot: the short-arm jab through point, the on-the-up off drive and one sweet extra-cover drive off Starc. There was also some looseness on view, especially with the attempted slicedrives through point that caught the edge but plummeted through empty space a couple of times.

He was almost on the offstump line to this rather full ball from Boland and for some reason, he went totally across the line. He could have pinged the gaps in the V on the off, but he went for a very casual-looking flick, played all around the ball, and was trapped lbw in front of the stumps.

Even KL Rahul's dismissal before these two came against the run of play.

TikTok faces US ban after court rejects to block law

SABRINA WILLMER December 6

TIKTOK'S CHINESE PARENT company faces a ban in the US next month if it doesn't sell the video-sharing app as a result of a federal appeals court ruling Friday. A three-judge panel in Washington unanimously upheld a new US law enacted to protect national security and user privacy, ruling that it did-

n't violate free speech protections under the Constitution's First Amendment. The decision leaves the Supreme Court as the company's last realistic hope for stopping the law from taking effect on January 19.

"The First Amendment exists to protect free speech in the United States," Judge Douglas Ginsburg wrote for the panel. "Here the government acted solely to protect that

freedom from a foreign adversary nation and to limit that adversary's ability to gather data on people in the United States."

Although the ban kicks in the day before President-elect Donald Trump is inaugurated, his opposition to it could still complicate its enforcement. Trump spoke out against a ban as he courted younger Americans in his campaign despite

trying to force its sale during his first term. The ruling from the US

Court of Appeals for the DC Circuit would make it harder for Trump to reverse the ban, according to Matthew Schettenhelm, an analyst for Bloomberg Intelligence. If the company turns to the Supreme Court, Schettenhelm said the justices are unlikely to block the law on an emergency basis.

A representative for Trump didn't immediately respond to an emailed request for comment. The Department of Justice and TikTok didn't immediately provide comment.

More than 170 million Americans use TikTok — owned by China-based ByteDance — as a source of entertainment and information or as a platform to build their businesses.

—BLOOMBERG

BOARD OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")



MobiKwik

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

of incorporation by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("RoC"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on June 23, 2021 and the name of our Company was changed to 'ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED', and a fresh certificate of incorporation dated June 25, 2021 was issued to our Company by the RoC. For details of changes in the name and registered office address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 269 of the Red Herring Prospectus dated December 5, 2024 ("RHP") filed with the RoC

Registered and Corporate Office: Unit 102, 1" Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India. Contact Person: Ankita Sharma, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: +91 (124) 490 3344; E-mail: ipo@mobikwik.com; Website: www.mobikwik.com/ir Corporate Identity Number: U64201HR2008PLC053766 PROMOTERS OF OUR COMPANY: BIPIN PREET SINGH, UPASANA RUPKRISHAN TAKU, KOSHUR FAMILY TRUST AND NARINDER SINGH FAMILY TRUST

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("EQUITY SHARES") OF ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE

"ISSUER") FOR CASHATA PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 5,720.00 MILLION (THE "ISSUE"). THE ISSUE COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 5,720.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE" OR THE "ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This is with reference to the RHP filed with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana on December 5, 2024, and the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement each dated December 5, 2024 published on December 6, 2024 ("Statutory Advertisement" and "Price Band Advertisement", respectively) in all editions of Financial Express (a widely circulated English national daily newspaper) and all editions of Jansatta (a widely circulated Hindi national daily newspaper, Hindi also being the regional language of Delhi NCR where our registered office is located) The attention of investors is drawn to the following:

The table under the heading 'Weighted Average Cost of Acquisition by shareholders holding more than 1% of the share capital of the Company' on page 33 of the RHP shall stand replaced with the following:

Period	Weighted average cost of acquisition (in ₹)	Upper end of the price band (₹[•]) is 'X' times the weighted average cost of acquisition	Range of acquisition price: Lowest price – Highest price (in ₹)
Last one year	640.40	[•]	640,40 - 640,40
Last eighteen months	640.40	[•]	640.40 - 640.40
Last three years	802.74	[•]	612.06 - 1,132.30

As certified by VPGS&Co, Chartered Accountants pursuant to their certificate dated December 5, 2024 The details under the head 'BID/ ISSUE CLOSES ON' in the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement should be read as 'Friday, December 13, 2024'.

The information above supersedes the information (as applicable) in the RHP, the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement to the extent inconsistent. The RHP, the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP, the Statutory Advertisement and the Price Band Advertisement, respectively. Relevant changes shall be reflected in the Prospectus as and when filed with the RoC, SEBI, BSE and NSE. Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS



SBI CAPITAL MARKETS LIMITED Unit No. 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo Building, Plot C-38, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4006 9807

E-mail: mobikwik.ipo@sbicaps.com Investor grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com Contact person: Kristina Dias / Krithika Shetty Website: www.sbicaps.com

SEBI Registration: INM000003531

One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: mobikwik.ipo@damcapital.in Investor grievance e-mail: complaint@damcapital.in Contact person: Arpi Chheda Website: www.damcapital.in

REGISTRAR TO THE ISSUE

Lal Bahadur Shashtri Marq. Vikhroli (West). Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 8108114949 E-mail: mobikwik.ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: mobikwik.ipo@linkintime.co.in

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED Unit 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector- 53, Gurugram, Haryana- 122003, India. Tel: +91 (124) 490 3344 E-mail: ipo@mobikwik.com Website: www.mobikwik.com/ir

Ms. Ankita Sharma,

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as nonreceipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode. For all Offer related queries and for redressal of complaints, Investors may also write to the BRLMs.

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

For ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated December 5, 2024 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.mobikwik.com/ir. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section "Risk Factors" beginning on page 34 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC.

and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no offering of securities is being made in the United States.

Place: Gurugram, Haryana

Date: December 6, 2024

financialexp.epapr.in

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED

SEBI Registration No.: MB/INM000011336

LINK Intime

Link Intime India Private Limited C 101, 1st Floor, 247 Park,

Website: www.linkintime.co.in

Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration: INR000004058

On behalf of the Board of Directors

Ankita Sharma

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States.

सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालियां बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली २०१६ के विनियम ६ के अंतर्गत) ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ प्रासंगिक विवरण ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 06-06-2006 वह प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई निगमित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित U65910MH2006PTC162528 देयता पहचान संख्या कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य पंजीकृत कार्यालय : मकान नंबर 695, तिरुपति एपीटी पाटकर प्लॉट कार्यालय (यदि कोई हो) का पता कलमभे शाहपुर, कलमगांव, ठाणे, शाहपुर, महाराष्ट्र, भारत, 421601 कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में ऋणशोधनाक्षमता प्रारंभ तिथि 04—12—2024 (आदेश 04—12—2024 को प्राप्त हुआ) ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया की समाप्ति की (आदेश दिनांक 04-12-2024 से 180 दिन) अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्य करने वाले एनपीवी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मंत्राह इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम और पंजीकरण जाता था) अपने निदेशक, श्री अतुल टंडन के माध्यम से, आईबीबीआई पंजी. सं. : IBBI/IPE-0040/IPA-2/2022-23/50021 अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता और ई-मेल, जैसा पता : हाउस नंबर 66, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है क्षेत्र दिल्ली - 110 092, ईमेल - ipe@npvca.in अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए संपर्क पता : 10वाँ तल, 1003, जियोन जेड1, एवॉलान होटल के उपयोग में आने वाला पता और ई–मेल पास, सिंधु भवन रोड, थलतेज, अहमदाबाद— 380054 प्रक्रिया ईमेल आईडी : cirp.tranzlease@gmail.com 11 दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18-12-2024 (दिनांक 04-12-2024 के आदेश की प्राप्ति से 14 दिन) अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (६ए) के खंड (बी) के अंतर्गत लेनदारों की श्रेणियां. यदि कोई हों 13 किसी एक वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं

एतदवारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, मुंबई पीट-VI ने दिनांक 04.12.2024 को ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश दिनांक 04.12.2024 को प्राप्त हुआ)।

(ए) www.ibbi.gov.in

एतदद्वारा ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे प्रविष्टि संख्या 10 के समक्ष उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के पास 18.12.2024 को या इससे पहले अपने दावे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण यहां उपलब्ध हैं : cirp.tranzlease@gmail.com

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। समस्त अन्य लेनदार साक्ष्य के साथ दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि संख्या 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार को प्रपत्र सीए.-एनए में वर्ग (वर्ग निर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के मध्य में से अपनी रुचि के प्राधिकृत प्रतिनिधि को इंगित करना होगा। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

> आईपीई-एनपीवी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड (पहले मंत्रा इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) अपने निदेशक - श्री अतुल टंडन के माध्यम से अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में नियुक्त ट्रांजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPE-0040/IPA-2/2022-23/50021 पत्राचार हेतु ईमेल- cirp.tranzlease@gmail.com

मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित उत्पाद एवएसएन कोड : 3004 क्षमता : 750000 किलोग्राम मात्रा : 419972.40 किलोग्राम पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पाद एचएसएन कोड : 3004 उत्पादौ/सेवाओं की मात्रा और मूल्य |क्षमता : 750000 किलोग्राम मात्रा : 419972.40 किलोग्राम बिक्री मूल्य : 4429.09 लाख कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या 256 दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विस्तृत जानकारी विवरण (अनुसूचियों के साथ), cirp.cianhealthcare@gmail.com या ऋणदाताओं की सूची सहित अन्य risingsun192123@gmail.com पर ईमेल विवरण युआरएल पर उपलब्ध हैं: भेजकर आरपी से प्राप्त की जा सकती है। संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण, समाधान आवेदकों के लिए पात्रता की जिसमें संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत जानकारी यूआरएल पर उपलब्ध है: |समाधान आवेदकों के लिए पात्रता शामिल होगी. cirp.cianhealthcare@gmail.com. पर ईमेल भेजकर आरपी से मांगा जा सकता है। या risingsun192123@gmail.com 10. रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की 23.12.2024 संभावित समाधान आवेदकों की 02.01.2025 अनंतिम सची जारी करने की तिथि अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत 07.01.2025 करने की अंतिम तिथि संभावित समाधान आवेदकों की 17.01.2025 अंतिम सची जारी करने की तिथि संभावित समाधान आवेदको को 22.01.2025 सुचना ज्ञापन, मृल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि अंतिम समाधान योजना प्रस्तुत करने 21.02.2025 16. रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के cirp.cianhealthcare@gmail.com लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी रोशेन चोर्हिया रिन. क्यांकः वंत्रीकरण राज्यः IBBI/IPA-001/IP-P02840/2023-2024/14347 सियान केन्यकेयर लिमिटेड के आईआरपी के रूप में माननीय एनसीएलटी, मुंबई के आदेश दिनांक 11 जून 2024 के माध्यम से पताः 114, गोलारिस शबटाउन, एत.एस. फडके मार्ग, इंस्ट गेस्ट फ्लाईओवर के पास. देनांक 07.12.2024

अभिरुपि की अभिन्यक्ति हेतु आर्मप्रण

सियान हेल्थकेयर लिमिटेड

फार्मास्युटिकल उद्योग में कार्यरत

ग्जीकृत कार्यालय पुणे (महाराष्ट्र) और प्लॉट ग्राम हिस्सोना. भगवानपुर, टाइकी. जिला हरिद्वार. (उत्तराखंड)

(विद्याता और बोधन अध्यता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए विवास समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अर्थन)

सीआईएन / एलएलपी नंबर के साथ पेन: AACCC5027C

कॉपॅरिट देनदार का नाम ।

पंजीकृत कार्यालय का पता

वेबसाइट का युआरएल

अचल संपत्तियां स्थित हैं

स्थानः मृम्यह

दिनांकः 20.11.2024

बयाना राशि जमा (ईएमडी)

(रुपये में)

1,19,20,000/-

प्रासंगिक विवरण

https://cian.co

उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश 248, ग्राम सिसौना, भगवानपुर, रूडकी, जिला

सियान हेल्थकेयर लिमिटेड

हरिद्वार, (उत्तराखंड)-247661

CIN: L24233PN2003PLC017563

मिल्केट नं. 3339, ब्लॉक नं.1, दक्षिण की ओर से.

सीएस नं. 227/23ए, हरपले पार्क, ऑप,

बर्जर पेंट, फुरसुंगी, पुणे, महाराष्ट्र, भारत,

क्र.

सं.

1.



दिनॉंक: 07/12/2024

स्थान ः दिल्ली

वसूली अधिकारी ॥ का कार्यालय ऋण वसूली अधिकरण – II, दिल्ली चौथा तल, जीवन तारा भवन संसद मार्ग, नई दिल्ली — 110001

आरसीसं 0162 / 2012

में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता

14 (क) प्रासंगिक प्रपन्न और

व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)

ई ऑक्शन बिक्री उद्घोषणा

आईएफसीआई लिमिटेड बनाम मैसर्स इंटरनेशनल सिरैमिक्स लि. "आदेश"

मेरे आदेश दिनांक 20.11.2024 के अनुसार, निम्नलिखित संपत्ति सार्वजनिक ई नीलामी द्वारा उक्त वसुली प्रमाणपत्र में दिनांक 08.01.2025 को बंची जाएगी:-नीलामी बिक्री वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' होगी https://drt.auctiontiger.net

नीलामी की तिथि और समय: 08.01.2025 को अपराह 03:00 बजे से 04:00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो 04:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ) संपत्ति का विवरण

The state of the s		RIGINAL PROPERTY OF THE PROPER	
लॉट संख्या	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	
1.	खत्तरा नं. 50/2, 51, 52, 53, 54/2, 60/2, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 49/2, गांव पौली, तहसील जुलाना, जिला जींद, (हरियाणा)	44.00.00.000	

संख्या	STHILL OF DIAZZE	577757778 A 5777 A 5775 A
,,	खसरा नं. 50/2, 51, 52, 53, 54/2, 60/2, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 49/2, गांव पौली, तहसील जुलाना, जिला जींद, (हरियाणा) उस पर निर्मित भवन सहित (मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्र 11.5617 एकड़ है)	11,92,00,000/-

निवधन व शत

 नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल: https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से 'ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन' होगी। 2. ईएमडी का मुगतान या तो 'रिकवरी ऑफिसर-II, डीआरटी-II, दिल्ली-ए/सी आरसी नंबर 162/2012' के पक्ष में डिमांड

डापट / पे ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा, या एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सूर्य किरण बिल्डिंग, एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाते- कस्त्रबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 खाता संख्या 00030350002631, IFSC Code HDFC0000003 में किया जाएगा। कंपनी के मामले में, ईएमडी के लिए उक्त डिमांड ड्रापट/पे ऑर्डर के साथ, पहचान की स्व-सत्यापित प्रति (मतदाता आई-कार्ड / डाइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) के साथ, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति साथ लगी होनी चाहिए. कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधित्व / यकील की पष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, रिकवरी अधिकारी-द्वितीय, ढीआरटी-द्वितीय, दिल्ली के कार्यालय में शाम 4:00 बजे, तक 06.01.2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के मामले में, यदि बोली उसकी अपनी ओर से या उसके प्रिंसिपलों की ओर से है तों एक घोषणा भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। बाद के मामले में, बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा और डिफॉल्ट के मामले में, उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ईएमडी वाले लिफाफे या एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का मुल प्रमाण, प्रेषक के विवरण, यानी पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर इत्यादि के सहित, उसके ऊपर 'आरसी नंबर 162 / 2012' लिखा होना चाहिए।
- संपत्ति 'जैसा है जहां है' और 'जैसा है जो है' के आधार पर बंबी जा रही है।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई—नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले ई—नीलामी बिक्री
- के लिए विस्तृत नियम और शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net पर जाएं और / या श्री खेत सिंह यादव. सहायक महाप्रबंधक (विधि) से मोबाइल नंबर 7607112266 ई-मेल आई-डी: khetsingh.yadav@ifciltd.com से संपर्क करें। 6. संमावित बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने के बाद पोर्टल पर खद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और
- पासवर्ड, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है, मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शनटाइगर, बी-704 वॉल शीट - II, ओरिएंट क्लब. के सामने, समीप-गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006 गुजरात (भारत) संपर्क व्यक्तिः श्री प्रवीण कुमार थेवर संपर्क नंबर 9722778828, ईमेल आईडी: praveen.thevar@auctiontiger.net, http://drt.auctiontiger.net, soni@auctiontiger.net, से प्राप्त करना होगा ।
- '. इच्छक बोलीदाता ईएमडी जमा करने के बाद ई—नीलामी संबन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड— ऑक्शनटाइगर, बी-704 वाल शीट- II. ओरिएंट क्लब, के सामने, समीप गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006 गुजरात (भारत) संपर्क व्यक्तिः श्री प्रवीण कुमार थेवर, संपर्क नंबर 9722778828 ईमेल आईडीः चतंत्रममदण्जीमञ्जत/नवजपवदजपहमतण्दमजए ेवदप 🗸 नबजपवदजपहमतण्दमजए ीजजचरूधकतजण्नबजपवदजपहमतण्दमजए से प्राप्त कर सकते हैं ।
- संगावित खरीदार 19.12.2024 और 20.12.2024 को सुबह 10:30 बजे से अपराह 04:00 बजे तक साइट का निरीक्षण कर सकता है।
- 9. केवल वैध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड रखने वाले और डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी के भूगतान की पृष्टि करने वाले बोलीदाता ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- 10. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने **06.01.2025 को शाम 4:00 बजे तक** रिकवरी ऑफिसर—II, डीआरटी—II, दिल्ली के कार्यालय में आरक्षित मूल्य से कम नहीं, अपनी बोलियां जमा कर दी हैं, वे 08.01.2025 की अपराह 03:00 बजे से अपराह 04:00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
- 11. बोलीदाताओं को रु. 1,00,000 /- (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा।
- 12. असफल बोली लगाने वाले को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत वसूली अधिकारी- II, ढीआरटी-द्वितीय, दिल्ली के कार्यालय से ही ईएमडी लेनी होगी।
- 13. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी समायोजित करने के बाद, रिकवरी ऑफिसर—II, डीआरटी—II, दिल्ली, के पक्ष में, खाता आर सी 162 / 2012 में, बोली / बिक्री राशि के 25% राशि के लिए अगले बैंक कार्य दिवस तक अर्थात शाम 04:00 बजे तक डिमांड डाफ्ट ∕ पे ऑर्डर तैयार करवा कर इस न्यायाधिकरण के पास जमा करना होगा। I
- 14. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता को अन्तिम बोली राशि की 75% राशि सम्पत्ति की बिक्री की तारीख से 15 वें दिन या उससे पूर्व रिकवरी ऑफिसर-II, डीआरटी-II, दिल्ली, खाते आर.सी. 162/2012 के पक्ष में डिमांड ड्रापट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करानी हांगा। यदि 15 व दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो 15 वें दिन के बाद अगले प्रथम बैंक कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त क्रेता को 1000 /- रुपए तक 2% तथा 1000 /- रुपए से अधिक पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी- II, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। (शेष राशि 75% जमा करने के मामले में डाक के माध्यम से उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक की रिधति में, बिक्री की नई उदघोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
- सीएचएफआई / सीएच वैक को दस्ती, स्पीड पोस्ट, क्रियर के माध्यम से सीडी पर विक्री उद्योषणा और संपत्ति के विशिष्ट हिस्से पर विपकाकर और उसके आसपास डम बजाकर घोषणा करने का निर्देश दिया गया है और इसकी एक प्रति न्यायाधिकरण के नोटिस बोर्ड पर
- विक्रय उद्योषणा अंग्रेजी के साथ—साथ स्थानीय भाषा, जिसका क्षेत्र में पर्याप्त व्यापक प्रचलन है वाले समाचार पत्रों में भी प्रकाशित. की जाएगी.
- 17. सीएचएफआई / सीएच बैंक को समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने और प्रकाशन के मूल साक्ष्य सुनवाई की अगली तारीख से पहले दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या सभी बोलियों, यदि अनुपयुक्त पाई जाएं, को
- अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित हैं। अन्तिम सुनवाई के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी के पास एक अपील लम्बित हैं।

संपत्ति की अनसची

क्रम	2000 CONTRACTOR CONTRA			
संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	राजस्व का आकलन किया गया संपत्ति या उसके किसी भाग पर	किसी का विवरण करने के लिए बाध्यता कौन सी संपत्ति हैं उत्तरदायी	जो रखे गये हों संपत्ति के लिए आगे, और कोई भी अन्य ज्ञात विवरण इसकी प्रकृति और मूल्य पर.
	खसरा नं. 50 / 2, 51, 52, 53, 54 / 2, 60 / 2, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 49 / 2 गांव पौली, तहसील जुलाना, जिला जींद, (हरियाणा) उस पर निर्मित भवन सहित (मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्र 11.5617 एकड है)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी के प्रमाण (स्पीड पोस्ट और क्रियर के लिए ट्रैक परिणाम सहित) और दस्ती, समाधार पत्रों में प्रकाशन के मूल प्रमाण और वेबसाइट सहित व्यापक प्रचार के उद्देश्य से ई-नीलामी बिक्री नोटिस की तामील करने के हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 17.12.2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा। (दत्तारेय बाजपेयी) वसूली अधिकारी-॥ डी आर टी-II, दिल्ली Judicial Magetrate First Class-15.

COURT NOTICE

एएफर वेषसा ३१.12.2025 गम

Inlanchar next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ccourts.gov.in Arreit Matwa Capital Ltd.

अपेरी (पूर्व), मुन्द्रं-400069, शिक्ट: cirp.cianhealthcare@gmail.com

Vs. Sunit kumar CNR NO: PBJL83-843586-2022 NACTI24069/2022 Next Date: 15-1-2025 police station/FIR no. skysion 6 act. "Sections) of recollable instruments act Publication Issued To: Sunii kumar silo sh, puren ram n'e ward ne 5 valmiki basti wine.5 karanpur gangapur rajasthan whereas complaint/case has been made before me that no has committed (or is suggested to have committed) the effence ounishship under section 138, of egotiable instruments act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said connot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said has absounded it or is concealing himself herself to avoid. the service of the said warrant's readmention is fieteby made that the said a responed to appear before this court (or

before treit on 15-1-2025 to answer the

IMIC 18 Jalandton

said complaint/case

केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

APRIGLOBAL **पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय** :— 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 **सर्किल कार्यालय :-** 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट -IV-क [नियम 8 (6) तथा 9(1) का परंतुक देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) और 9(1) के परंत्क के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित / भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभत लेनदार, के प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभृत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। स्रक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

-2,	1. कर्जदार(रों) का नाम	बंधक सम्पत्ति	1. ई—नीलामी की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य
	2. बकाया राशि	का वर्णन	2. ईएमडी जमा करने की	2. सम्पत्ति की ईएमडी
Ī	(हमारी आगरा शाखा की ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : दुकान नगरपालिका	अंतिम तिथि	3. वृद्धि मूल्य
	I NMF A CR000120220)	नंबर 430 (पुराना) नया नगरपालिका दुकान नंबर	3. सम्पत्ति के निरीक्षण की	सुरक्षित मूल्य :
	1. विवेक कुमार अग्रवाल ("कर्जदार")	222, क्षेत्रफल परिमाप 32 वर्ग मीटर, जामा मस्जिद	ाताथ एव समय	रू. 17,00,000/— (रूपए सत्रह लाख मात्र)
	2. श्रीमती माया देवी,	रोड, निकट अमरनाथ पाराशर हवेली, हाजन गली,	1. ई—नीलामी की तिथि :	धरोहर राशि जमा :
	3. श्री सत्य प्रकाश (सह–कर्जदार)	कस्बा फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली तथा जिला		रू. 1,70,000∕− (रूपए एक लाख सत्तर
	ऋण खाता संख्या LNMEAGR000120220	आगरा, उत्तर प्रदेश–283110, चौहद्दी निम्नानुसार :		हजार मात्र)
	(पुराना) / 80300005495533 (नया)	पूरब : श्री मदन मटोली की दुकान, पश्चिम : फाटक		वृद्धि मूल्य :
	रूपए 42,81,320/— (रूपए बयालीस लाख	श्री मुरारी लाल-दीन दयाल पाराशर, उत्तर : सदर		रू. 10,000 ∕ − (रूपए दस हजार मात्र)
	इक्यासी हजार तीन सौ बीस मात्र) 03–12–2024	दरवाजा और मेन मार्किट की रोड, दक्षिण : श्री रतन		
	तक + लागू भावी ब्याज	लाल का मकान	3. निरीक्षण की तिथि : 08–01–2025	

बिक्री के विस्तुत नियम एवं शर्तों के लिए, कपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभुत लेनदार, की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें :– www.capriglobal.in/auction ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :--

्सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।

2. सम्पत्ति / आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।

3. प्रतिभुत लेनदार द्वारा जारी की गई ई–नीलामी बिक्री सुचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभुत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभृत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति / आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / देयताओं की स्वतंत्र जांच / सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।

।. नीलामी / बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई–नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे। 5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई—नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभृत लेनदार / सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क

समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 3. संभावित बोलीदाता ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079—68136880 / 68136837), श्री चिंतन भट्ट मोबाइल नंबर 9265562821 एवं 9265562818, ई—मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।

'. इच्छुक बोलीदाताओं को ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है। 3. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड

ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 09–01–2025 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। . इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी हेत् डिमांड ड्राफट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर उबी, द्वितीय तल, पुसा रोड, नई दिल्ली—110005 को अधिकतम 09—01—2025 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा

सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर – (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित

मूल्य से अधिक उद्भुत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई—नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान ⁄ नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई—नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ जाएगा।

12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी। 13. ई—नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई—मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, कार्यालय / प्लॉट नंबर 3बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली—110005 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजनी होगी, ताकि उसको ई—नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।

14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी / पे ऑर्डर / एनईएफटी / आरटीजीएस / चैक द्वारा जमा करनी होगी।

15. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेत् रखी जाएगी। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।

17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।

18. म्युनिसिपल / पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। 19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य / बोली राशि जमा करने तथा सभी करों / प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने

पर ही जारी किया जाएगा। 20. हस्तांतरण, स्टाम्प डयुटी, पंजीकरण हेतु लागु कानुनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।

21. प्राधिकत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित / निरस्त कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेत प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।

23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई—नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।

24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।

25. अतिरिक्त विवरण तथा पछताछ के लिए प्राधिकत अधिकारी. कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड : श्री अमित वर्मा मोबाइल नंबर 9013255520 / 7400445137 से सम्पर्क करें और आगे पछताछ के लिए सश्री कल्पना चेतनवाला – 77380 39346 से सम्पर्क करें। 26. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित

करने के संबंध में 30 (तीस) दिन का कानुनी नोटिस भी है। विशेष अनुदेश / चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता

बोलीदाता की ओर से किसी विफलता/कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रूकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। स्थान : दिल्ली+एनसीआर/आगरा. (उत्तर प्रदेश) तिथि : 07-12-2024 हस्ता / – (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").



to view the RHP)

(Please scan the QR code

PobiKwik

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

of incorporation by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("RoC"). Thereafter, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on June 23, 2021 and the name of our Company was changed to 'ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED', and a fresh certificate of incorporation dated June 25, 2021 was issued to our Company by the RoC. For details of changes in the name and registered office address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 269 of the Red Herring Prospectus dated December 5, 2024 ("RHP") filed with the RoC. Registered and Corporate Office: Unit 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India.

Our Company was incorporated under the name 'ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED' on March 20, 2008 at New Delhi as a private limited company, under the Companies Act, 1956 and was granted a certificate

Contact Person: Ankita Sharma, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: +91 (124) 490 3344; E-mail: ipo@mobikwik.com; Website: www.mobikwik.com/ir Corporate Identity Number: U64201HR2008PLC053766

PROMOTERS OF OUR COMPANY: BIPIN PREET SINGH, UPASANA RUPKRISHAN TAKU, KOSHUR FAMILY TRUST AND NARINDER SINGH FAMILY TRUST INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("EQUITY SHARES") OF ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 5,720.00 MILLION (THE "ISSUE"). THE ISSUE COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 5,720.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE" OR THE "ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

This is with reference to the RHP filed with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana on December 5, 2024, and the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement each dated December 5, 2024 published on December 6, 2024 ("Statutory Advertisement" and "Price Band Advertisement", respectively) in all editions of Financial Express (a widely circulated English national daily newspaper) and all editions of Jansatta (a widely circulated Hindi national daily newspaper, Hindi also being the regional language of Delhi NCR where our registered office is located). The attention of investors is drawn to the following:

The table under the heading 'Weighted Average Cost of Acquisition by shareholders holding more than 1% of the share capital of the Company' on page 33 of the RHP shall stand replaced with the following: House and of the order hand (TI-1) is (VI times

Period	of acquisition (in ₹)	the weighted average cost of acquisition	Kange of acquisition price: Lowest price – Highest price (in ₹)
Last one year	640.40	[•]	640.40 - 640.40
Last eighteen months	640.40	[•]	640.40 - 640.40
Last three years	802.74	[•]	612.06 - 1,132.30

As certified by V.P.G.S.&.Co. Chartered Accountants pursuant to their certificate dated December 5, 2024. The details under the head 'BID/ ISSUE CLOSES ON' in the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement should be read as 'Friday, December 13, 2024'.

The information above supersedes the information (as applicable) in the RHP, the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement to the extent inconsistent. The RHP, the Statutory Advertisement and Price Band Advertisement accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP, the Statutory Advertisement and the Price Band Advertisement, respectively. Relevant changes shall be reflected in the Prospectus as and when filed with the RoC, SEBI, BSE and NSE. Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS



SBI CAPITAL MARKETS LIMITED Unit No. 1501, 15th Floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo Building, Plot C-38, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051, Maharashtra, India

Tel: +91 22 4006 9807 E-mail: mobikwik.ipo@sbicaps.com Investor grievance e-mail: investor.relations@sbicaps.com Contact person: Kristina Dias / Krithika Shetty Website: www.sbicaps.com

SEBI Registration: INM000003531

Place: Gurugram, Haryana

Date: December 6, 2024

DAM CAPITAL ADVISORS LIMITED One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: mobikwik.ipo@damcapital.in Investor grievance e-mail: complaint@damcapital.in Contact person: Arpi Chheda Website: www.damcapital.in SEBI Registration No.: MB/INM000011336

REGISTRAR TO THE ISSUE **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited C 101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shashtri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India

Tel: +91 8108114949 E-mail: mobikwik.ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: mobikwik.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration: INR000004058 All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Ms. Ankita Sharma, ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

Unit 102, 1st Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road, Sector- 53, Gurugram, Haryana- 122003, India. Tel: +91 (124) 490 3344 E-mail: ipo@mobikwik.com Website: www.mobikwik.com/ir

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as nonreceipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode. For all Offer related queries and for redressal of complaints,

Investors may also write to the BRLMs. For ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Ankita Sharma Company Secretary & Compliance Officer

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated December 5, 2024 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.mobikwik.com/ir. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section "Risk Factors" beginning on page 34 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, no offering of securities is being made in the United States.

www.readwhere.com